



July 12, 2022

Asst. Vice President, Listing Deptt.,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding the issue of duplicate share certificates viz. Letters of Confirmation in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

Kindly note that the Letters of Confirmation will be issued to the concerned shareholders in case no objection is received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Limited


(Dhiraj Kapoor)
Company Secretary & Compliance Officer

 Encl.: As above

Hero MotoCorp Ltd.

Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj - Phase -II, New Delhi - 110070, India
Tel. +91-11-46044220, Fax +91-11-46044399
HeroMotoCorp.com CIN: L35911DL1984PLC017354 PAN: AAACH0812J



FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA)

LIMITED

ed" under the provisions of the Companies issued in the annual general meeting held on y, the name of our Company was changed 0 by the Registrar of Companies, Mumbai. 20 and a fresh certificate of incorporation Identification Number of our Company is

Maharashtra, India.

er.
p.com

ALTRADE LLP

ATE LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "THE ISSUE"), OF WHICH 1,45,600 EQUITY MAKER RESERVATION PORTION"). THE REINAFTER REFERRED TO AS THE "NET JE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF

THE ISSUE PRICE Y SHARES

JULY 05, 2022

of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as pursuant to letter dated June 22, 2022. July 13, 2022 (Subject to receipt of listing

made pursuant to Regulation 253(2) of the Public shall initially be made available for t to Individual Applicants other than Retail or. If the Retail Individual Investor category in any of the categories, would be allowed in consultation with the Lead Manager and s, regulations and guidelines. All potential ding through UPI mode (as applicable) by Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs").

f the applications received in the Net Issue

Technical Rejections & Withdrawals	No. of Equity Shares
Applications	7,12,000
	22,89,600
	30,01,600

ere no Technical Rejection & any withdrawal. 800 Equity Shares in Retail Category. The

at the Issue Price of ₹153 per Equity Share, n this category is 1,45,600 Equity Shares.

Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted
1:1	1,45,600
	1,45,600

ill Individual Investors, at the Issue Price of uations, 2018, the total number of shares ails of the Basis of Allotment are as under:

er of ssful ants er ding y)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	Surplus/ Defecit
0	100.00	7,12,000	-6,64,800
0	100.00	7,12,000	-6,64,800

ion - Retail Investors, at the Issue Price of uations, 2018, the total number of shares ails of the Basis of Allotment are as under:

% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Defecit
2.86	1600	0.08	173
2.86	4800	0.24	-193
2.86	6400	0.31	-20
5.71	14400	0.71	133
11.43	32000	1.57	-2241
0.00	2400	0.12	2400
5.71	28800	1.41	266

Hero MotoCorp Limited
 Regd. Office : The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070
 CIN: L35911DL1984PLC017354,
 Phone No. 011-46044220 | Fax No. 011-46044399
 E-mail: secretarialho@heromotocorp.com,
 Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ("Company") are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face Value Rs. 2/-) in their favour :

Folio No.	Shareholders Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares
HML0104842	INDER LAL UPPAL	Rs. 2/-	166096461-166096770	525943	310
HML0100958	VIDYA RANI KOHLU ROSHAN LAL KOHLI	Rs. 2/-	158749461-158751140	515660	1680
HML0010589	CHANDRAKANT KAKKAD	Rs. 10/-	530066-530115	10611	50
HML0090421	SHOBHA NAYAK	Rs. 2/-	47959306-47959425	540631	120
HML0072730	MORESWAR TATIWAR PRAFUL TATIWAR PRAVIN TATIWAR	Rs. 10/-	3655216-3655265 16220986-16220995 16220996-16220997 20908934-20908983 20908984-20908995	73114 236115 236116 341894 341895	50 10 02 50 12

Any person having objection to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd.
 Sd/-
 Dhiraj Kapoor
 Company Secretary & Compliance Officer

Place : New Delhi
 Date : 11.07.2022



JD ORGOCHEM LIMITED

CIN: L24100MH1973PLC016908

Registered Office: 301, Sumer Kendra, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 018

Tel No.: 022- 4938 4200/4300 • Fax No.: 022- 3042 3434

Website: www.jdorgochem.com • E-mail id: investor.relations@jdorgochem.com

NOTICE OF 48TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 48th Annual General Meeting (AGM) of the Members of JD Orgochem Limited is scheduled to be held on Monday, 08th August, 2022 at 3.00 p.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in compliance with the procedure prescribed in General Circular No.14/2020 dated 08th April, 2020, No.17/2020 dated 13th April, 2020, No. 20/2020 dated 05th May, 2020 and No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and No. 02/2022 dated 05th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India.

The Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 including the Notice of 48th AGM of the Company, are being sent to the Members whose email ids are registered with the Company/Depository Participants. The Annual Report along with Notice of 48th AGM of the Company is available on the website of the Company at www.jdorgochem.com and shall also be available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. Members who wish to inspect the statutory documents or relevant documents referred to in the Notice can send an email to investor.relations@jdorgochem.com upto the date of the AGM.

The Members of the Company who are holding Shares in physical form or who have not registered their email id with the Company, can cast their vote through remote e-voting which commences on Thursday, 04th August, 2022 (9.00 a.m. IST) and ends on Sunday, 07th August, 2022 (5.00 p.m. IST) or through e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of 48th AGM.

The procedure for registration of email id to receive future documents through email:

- Members holding shares in Dematerialised mode are requested to register their email id either with the Company or with their Depository Participants or the Registrar and Transfer Agent of the Company.
- Members holding shares in physical form are requested to register their email id by sending a written request at the Registered Office of the Company or by sending an e-mail to rent.helpdesk@linkintime.com in mentioning their folio number.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 02nd August, 2022 to Monday 08th August, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 48th AGM.

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022- 2305 8738 / 022- 2305 8542-43.

In case the Members have any queries or issues regarding login/remote e-voting during the AGM, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or contact at 022-4918 6175.

For JD Orgochem Limited
 Sd/-
 Shivani Shailesh Kawle
 Company Secretary and Compliance Officer
 Membership No.: A63914

Place: Mumbai
 Date: 11th July, 2022

NTPC Limited

(A Govt. of India Enterprise)

Corporate Identification Number : L40101DL1975GOI007968
 Regd. Office: NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi -110003 Tel.: 011-24367072, Fax No.: 011-24361018
 Email-isd@ntpc.co.in, Website: www.ntpc.co.in

ATTENTION - VALUED SHAREHOLDERS OF NTPC LTD.

Pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (IEPF Rules 2016), a Company is required to transfer the amounts of unpaid dividend remaining unpaid and unclaimed for a continuous period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the credit of the Investor Education and Protection Fund (Fund) set up by the Central Government.

Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and IEPF Rules, 2016, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall also be transferred to IEPF Account.

Details of the shareholders, in respect of shares for which dividend had remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years and transferred to the IEPF Authority's Demat Account, are available on the website of the Company at www.ntpc.co.in.

The Interim Dividend for the financial year 2014-15 @ Rs. 0.75 per equity share was paid on 13.02.2015. As per the provisions of the Companies Act, 2013, the unpaid and unclaimed amounts of the aforesaid dividend became due for transfer to Fund on 28.02.2022 and the same has been subsequently transferred to IEPF. The corresponding shares of the holders who have not encashed/ claimed their dividend for seven consecutive years are also liable to be transferred to IEPF Authority's Demat Account.

Shareholders may please note that if any amount/ shares are transferred to the Fund, then the same has to be claimed from the 'Investor Education and Protection Fund Authority' following the procedure as provided under IEPF Rules, 2016.

Shareholder(s) may refer to "IEPF Details" under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in for further information for unclaimed/ unpaid dividend/ shares due to be transferred to IEPF Account.

Subsequent last dates for lodging claims for unpaid/ unclaimed dividend and shares to IEPF are as under:-

Financial Year	Nature of Dividend	Dividend%	Last dates of lodging claim
2014-15	Final	17.50%	19.10.2022
2015-16	Interim	16.00%	28.02.2023
2015-16	Final	17.50%	25.10.2023

NTPC Ltd. had also issued Tax-Free Bonds - 2013, Tax-Free Bonds - 2015 and Bonus Debentures. As on date, the refund of application money for Tax-Free Bonds 2015 are lying unclaimed. Investors are also requested to check the details of such refund amounts/ unclaimed Debentures under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in and lodge the claim with the Kfin Technologies Limited (RTA for Tax-Free Bonds and Bonus Debentures) at Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032 Phone No: 040-67161518, Fax: (+91 40) 2343 1551 and Email: einward.ris@kfintech.com or with the Dy. Nodal Officer, Investor Services Department, NTPC Ltd.

Shareholders(s) are requested to keep their email ID and other relevant details updated with their Depository Participant (DP), in case of shares held in dematerialized form and with the Company/RTA, in case of shares held in physical form.

For and on behalf of NTPC Ltd.
 Sd/-
 (Nandini Sarkar)
 Company Secretary

Date: 11 July, 2022
 Place: New Delhi

Leading the Power Sector

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
 (एन एमडीसी लिमिटेड एन एमडीसी सिस्टम)
 A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
 NSIC New MDSP Building, 2nd Floor, Okhla Industrial Estate, New Delhi - 110 020

TENDER NOTICE (E-Tender cum Reverse Auction Mode Only)
 CONCOR invites Online tender in two bid system for "Providing professional services for Handling of cargo at ICD/PSWC, Dappar, Punjab" only through e-tender cum reverse auction mode. The bid document can only be downloaded after paying ₹1000/- through online from the website (www.tenderwizard.com/CCLL).

Tender No.	CON/Area-ITC/Cargo Handling/PSWC/2022
Name of Work	Providing professional services for Handling of cargo at ICD/PSWC, Dappar
Estimated Cost	₹ 2,02,61,996/- (including GST) for 4 years
Period of Contract	Four (4) years
Earnest Money Deposit	₹ 1,01,310/- through e-payment.
Cost of Document	₹ 1,000/- inclusive of all taxes and duties through e-payment.
Tender processing fee	₹ 4,720/- inclusive of all taxes and duties (Non-refundable) through e-payment.
Date and time of Sale (Online)	From 12.07.2022 at 15:00 hrs. to 25.07.2022 (upto 16:00 hrs.)
Last date and time of Submission of tender	Upto 26.07.2022 at 15:00 hrs.
Date & Time of opening of tender	On 27.07.2022 at 15:30 hrs.

*Exemption to MSES
 For eligibility criteria and other details please log onto www.concorindia.co.in or eprocure.gov.in or www.tenderwizard.com/CCLL. Bidders are requested to visit the websites regularly. CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons therefor.
 Sr. General Manager/C&O/Area-I

AMJ LAND HOLDINGS LIMITED
 CIN: L2012MH1964PLC013058
 Registered Office : Thergaon, Pune - 411033.
 Tel.: 020-30613333 Fax: 020-40773388
 Website: www.amjland.com, E-mail: admin@amjland.com

NOTICE OF THE 57TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE is hereby given that the 57th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Saturday, 13th August, 2022 at 11:30 a.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the Members at a Common Venue in compliance with the provisions of

BOI
Bank of India
Relationship Beyond Banking

जनपथ शाखा, 66 जनपथ, नई दिल्ली- 110001
टेलीफोन - 011-28844060, 23353268
ई-मेल - Janpath@bankofindia.co.in

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के संपादित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना दिनांक 11.04.2022 को जारी की जिसमें ऋणी (1) मेसर्स खुशाल एंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर श्री खुशाल मोहन (प्रधान देनदार), (2) श्री प्रदीप कुमार गारुड (गारंटर), (3) श्रीमती अंजू रानी (गारंटर) से उक्त सूचना-पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर सूचना-पत्र में उल्लेखित रु. 1,05,55,762.00 (रुपये एक करोड़ पाँच लाख पचपन हजार सात सौ बाराह मात्र) दिनांक 11.04.2022 तक + आगे का ब्याज, खर्च एवं अन्य शुल्क इत्यादि को लौटाने के लिये निर्गमित किया।

ऋणी द्वारा राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की उपधारा (4) की धारा 13 के संपादित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के तहत उक्तको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 06 जुलाई, 2022 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विधिद्वारा और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी कोई व्यवहार बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ शाखा के रूप में 1,05,15,410.30 (रुपये एक करोड़ पाँच लाख पचपन हजार चार सौ दस एवं तीस पैसे मात्र) + दिनांक 06.07.2022 तक आगे का ब्याज एवं अन्य शुल्कों के प्रसार के अर्थव्यवस्था में हानि।

ऋणी को ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उक्त धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते हैं जिसमें आवासीय सम्पत्ति- मकान नं. 232 (नया नं. 589/16) क्षेत्रफल 95 वर्ग फीट (19 फीट 9 इंच X 44 फीट) कवर्ड एरिया 1638 वर्गफीट जो बर्फ खाना के नाम से ज्ञात आवासीय कॉलोनी, गुडगांव, तहसील व जिला गुडगांव (हरियाणा) में स्थित, सीमाएं- उत्तर- अन्य पवन, दक्षिण- चमंडी लाल जैन की सम्पत्ति, पूर्व- ई-टेल करण शर्मा का मकान, पश्चिम- श्री निरजा शंकर भारद्वाज का मकान एवं भग्ना।

दिनांक: 06.07.2022
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ इंडिया

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बिकेरी, सी-27, जी-ब्लॉक, बॉम्बे कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे (ई), मुंबई-400001
शाखा कार्यालय: 101, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-128, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

आधिपत्य सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसमाप्ति का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां मौखिक विवरणानुसार उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गमित की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को उक्त सूचनाओं में अंकित राशि का मुताबिकी वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभूतगुप्तान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता(गण)/सह-उधारकर्ता(गण) राशि का प्रतिभूतगुप्तान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणों सम्पत्ति का, उक्त नियमवली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्तको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उक्त साथ अंकित तिथियों को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विधि रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन-देन न करे तथा जनसाधारण को वे किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा, वह वह उरमं यानी सूचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों से भारी ब्याज, लागतों, शुल्कों हेतु कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्रभारहीन होगा। उधारकर्ता का ध्यानकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ताओं, अनुपस्थित संपत्ति, बकाया देयराशि, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचनाओं और उक्तके अंतर्गत अस्थित राशियों, आधिपत्य की तिथि के विवरण वह इसमें नीचे दिए गए हैं।

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता के नाम तथा पते/ऋण खाता संख्या/ऋण राशि	अचल संपत्ति के विवरण	1. आधिपत्य की तिथि 2. आधिपत्य का प्रकार 3. मांग सूचना तिथि 4. बकाया राशि रु. में
श्री पवन कुमार एवं श्री विकास कुमार गोयल, दोनों निवासी: जीए रोड जखोली अड्डा 179/15 शोरा कोठी, कैथल-136027	शोरा कोठी, गली संख्या 4, जीए रोड, तहसील एवं जनपद-कैथल, हरियाणा-136027, जो इस प्रकार परिभाषित है: उत्तर- अन्य की संपत्ति, पूर्व-अन्य की संपत्ति, पश्चिम- गली, दक्षिण- सुभाष की संपत्ति	1) 08/07/2022 2) सांकेतिक आधिपत्य 3) 05/12/2021 4) रु. 25,85,905.00/- (रुपए पच्चीस लाख पचासवीं हजार नौ सौ पचास मात्र) दिनांक 30.11.2021 के अनुसार और पूर्णरूपेण मुताबिक होने तक 01.12.2021 से लागू ब्याज के साथ देय एवं मुताबिकीय
ऋण खाता संख्या: 759301एए2684910 (संपीकृत ऋण राशि: रु. 23,83,730/-) संबंधित ऋण खाता संख्या का नाम: श्री पवन कुमार		

किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री सोमेश सुभियाल (ः91 9810636402), श्री सुभित सिन्हा (ः91 9810616498) और श्री प्रसाद गोयल (ः91 9848616436) से संपर्क करें।

स्थान: कैथल, दिनांक: 12.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी : कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

HDFC
We understand your world

राजेंद्र सेवक एच.टी. 6, सेक्टर-16बी, आवास विकास, मिट्ठानगर रोड, आगरा-282007

कच्चा सूचना परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसमाप्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14 जन., 2022 जारी कर ऋणधारकों 1) श्री. गुणा बुक डिपो, हारा उधारकर्ता श्रीमती स्वर्णिनी गुप्ता (ऋणधारक), 2. श्री. जय मा ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, हारा उधारकर्ता श्री अश्वथ कुमार गुप्ता (ऋणधारक), 3. श्रीमती सरोजिनी गुप्ता, पत्नी श्री अश्वथ कुमार गुप्ता (गारंटर), 4. श्री अश्वथ कुमार गुप्ता, पुत्र श्री राज कुमार गुप्ता (गारंटर) एवं गारंटर को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लेखित रु. 80,73,098/- (रुपये अस्सी लाख त्रिंशत् हजार अठान्नाई मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 8 जुलाई, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमवली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय न. 80,73,098/- (रुपये अस्सी लाख त्रिंशत् हजार अठान्नाई मात्र) के साथ प्रदत्त राशि, यदि कोई हो, को घटाकर खर्च एवं चार्जेज आदि के साथ उक्त पर आने के ब्याज के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसमाप्ति को विधिद्वारा करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

गिरवी सम्पत्ति: सम्पत्ति सं. 668/3, मोह. खरगजीत नगर, सिटी, तह. एवं जिला मैनपुरी, पिन कोड-205001 में स्थित 1212/334/3 पर निर्मित एक प्लॉट, अथ मकान (668/3 का भाग), चौहदरी: पूर्व: गली रोड 10 फीट चौड़ा जिसके बाद श्रीमती प्रभावती पुष्कराणी की सम्पत्ति, पश्चिम: बाउण्ड्री मूल चंद बाबू, उत्तर: अनाखे लाल की सम्पत्ति, दक्षिण: श्रीमती प्रभावती पुष्कराणी की सम्पत्ति।

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ट्रेड प्लाजा, प्लॉट नंबर 2, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज - फेज- II, नई दिल्ली - 110070
CIN : L35911DL1984PLC017354
फोन: 011-46044220 | फैक्स: 011-46044399
ई-मेल: secretarial@heromotocorp.com
वेबसाइट: www.heromotocorp.com

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (कंपनी) के मौजूदा शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गम हो गए हैं, ऐसी सूचना संबंधित शेयरधारकों से इस संबंध में प्राप्त हुई है। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाणपत्रों (अंकित मूल्य रु. 2/-) के एवज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है :

फोनिया नं.	शेयरधारकों का नाम	अंकित मूल्य	डिसिटिन्कटिव नं.	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की संख्या
HML0104842	इंदर लाल उम्लत	रु. 2/-	1660996461-1660996770	525943	310
HML0100958	विद्या रानी कोहली रोशन लाल कोहली	रु. 2/-	158749461-158751140	515660	1680
HML0010589	चंद्रकांत कक्कड़	रु. 10/-	530066-530115	10611	50
HML0090421	शोभा नायक	रु. 2/-	47959306-47959425	540631	120
HML0072730	मौरेश्वर ततिवार प्रफुल ततिवार प्रवीण ततिवार	रु. 10/-	3655216-3655265 16220986-16220995 20908934-20908983 20908984-20908995	73114 236115 236116 341894 341895	50 10 02 50 12

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी के 'सचिवीय डिपार्टमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या ई-मेल secretarial@heromotocorp.com पर भेजे। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेखित शेयर प्रमाणपत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
हस्ता/-
धीरज कपूर
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.07.2022

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

फ़ीनिक्स एआरसी प्राइवेट लि. (फ़ीनिक्स ट्रेड एफवाइड 19-... ने वित्तीय परिसमाप्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 11.04.2022 को जारी की जिसमें ऋणी (1) मेसर्स खुशाल एंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर श्री खुशाल मोहन (प्रधान देनदार), (2) श्री प्रदीप कुमार गारुड (गारंटर), (3) श्रीमती अंजू रानी (गारंटर) से उक्त सूचना-पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर सूचना-पत्र में उल्लेखित रु. 1,05,55,762.00 (रुपये एक करोड़ पाँच लाख पचपन हजार सात सौ बाराह मात्र) दिनांक 11.04.2022 तक + आगे का ब्याज, खर्च एवं अन्य शुल्क इत्यादि को लौटाने के लिये निर्गमित किया।

ऋणी द्वारा राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की उपधारा (4) की धारा 13 के संपादित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के तहत उक्तको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 06 जुलाई, 2022 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विधिद्वारा और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी कोई व्यवहार बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ शाखा के रूप में 1,05,15,410.30 (रुपये एक करोड़ पाँच लाख पचपन हजार चार सौ दस एवं तीस पैसे मात्र) + दिनांक 06.07.2022 तक आगे का ब्याज एवं अन्य शुल्कों के प्रसार के अर्थव्यवस्था में हानि।

ऋणी को ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उक्त धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते हैं जिसमें आवासीय सम्पत्ति- मकान नं. 232 (नया नं. 589/16) क्षेत्रफल 95 वर्ग फीट (19 फीट 9 इंच X 44 फीट) कवर्ड एरिया 1638 वर्गफीट जो बर्फ खाना के नाम से ज्ञात आवासीय कॉलोनी, गुडगांव, तहसील व जिला गुडगांव (हरियाणा) में स्थित, सीमाएं- उत्तर- अन्य पवन, दक्षिण- चमंडी लाल जैन की सम्पत्ति, पूर्व- ई-टेल करण शर्मा का मकान, पश्चिम- श्री निरजा शंकर भारद्वाज का मकान एवं भग्ना।

दिनांक: 06.07.2022
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ इंडिया

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बिकेरी, सी-27, जी-ब्लॉक, बॉम्बे कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे (ई), मुंबई-400001
शाखा कार्यालय: 101, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-128, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

आधिपत्य सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसमाप्ति का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां मौखिक विवरणानुसार उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गमित की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को उक्त सूचनाओं में अंकित राशि का मुताबिकी वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभूतगुप्तान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता(गण)/सह-उधारकर्ता(गण) राशि का प्रतिभूतगुप्तान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणों सम्पत्ति का, उक्त नियमवली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्तको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उक्त साथ अंकित तिथियों को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विधि रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन-देन न करे तथा जनसाधारण को वे किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा, वह वह उरमं यानी सूचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों से भारी ब्याज, लागतों, शुल्कों हेतु कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्रभारहीन होगा। उधारकर्ता का ध्यानकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ताओं, अनुपस्थित संपत्ति, बकाया देयराशि, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचनाओं और उक्तके अंतर्गत अस्थित राशियों, आधिपत्य की तिथि के विवरण वह इसमें नीचे दिए गए हैं।

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता के नाम तथा पते/ऋण खाता संख्या/ऋण राशि	अचल संपत्ति के विवरण	1. आधिपत्य की तिथि 2. आधिपत्य का प्रकार 3. मांग सूचना तिथि 4. बकाया राशि रु. में
श्री पवन कुमार एवं श्री विकास कुमार गोयल, दोनों निवासी: जीए रोड जखोली अड्डा 179/15 शोरा कोठी, कैथल-136027	शोरा कोठी, गली संख्या 4, जीए रोड, तहसील एवं जनपद-कैथल, हरियाणा-136027, जो इस प्रकार परिभाषित है: उत्तर- अन्य की संपत्ति, पूर्व-अन्य की संपत्ति, पश्चिम- गली, दक्षिण- सुभाष की संपत्ति	1) 08/07/2022 2) सांकेतिक आधिपत्य 3) 05/12/2021 4) रु. 25,85,905.00/- (रुपए पच्चीस लाख पचासवीं हजार नौ सौ पचास मात्र) दिनांक 30.11.2021 के अनुसार और पूर्णरूपेण मुताबिक होने तक 01.12.2021 से लागू ब्याज के साथ देय एवं मुताबिकीय
ऋण खाता संख्या: 759301एए2684910 (संपीकृत ऋण राशि: रु. 23,83,730/-) संबंधित ऋण खाता संख्या का नाम: श्री पवन कुमार		

किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री सोमेश सुभियाल (ः91 9810636402), श्री सुभित सिन्हा (ः91 9810616498) और श्री प्रसाद गोयल (ः91 9848616436) से संपर्क करें।

स्थान: कैथल, दिनांक: 12.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी : कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

HDFC **हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बेकम्बे, रिकलेमेशन, चर्चिगट, मुम्बई 400 020. CIN L70100MH1977PLC019916, शाखा : पहली मंजिल, पदम टॉवर - 2, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर - 208001.

कच्चा सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के संपादित धारा 13 (12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी/यों द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना पत्र जारी कर निम्नलिखित ऋणियों/सह-ऋणियों/वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के समस्त दस्तावेज राशियों के मुताबिक तथा / या वस्तु की दिनांक तक का अकारिभक्त व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित कथित सूचनाओं की दिनांक से 60 दिन के अंदर सूचनाओं में अंकित लागू दरों पर ब्याज सहित अदा करने करने हेतु निर्दिशित किया था।

क्र.	ऋणियों/सह-ऋणियों/वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम	बकाया राशि	मांग नोटिस की दिनांक	आधिपत्य दिनांक	अचल संपत्ति (यों)/सुरक्षित आस्ति (यों) का विवरण
1.	श्री श्याम गुप्ता एवं श्रीमती शशि गुप्ता	₹ 5,43,994/- 28-02-2022 तक	21-03-2022	07-07-2022 (सांकेतिक कब्जा)	खसरा नं.89 मीन केप्लॉट पर निर्मित मकान, ग्राम माझरा, पिपाडखेड़ा, गली वैहातीमाली, परगना हांधा, उन्नाव स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल : 125.46 वर्गमीटर, चर्तुसीमा : पूर्व : प्लॉट नं. 159, पश्चिम : 30 फीट रोड, उत्तर : प्लॉट नं. 145, दक्षिण : प्लॉट नं. 143.
2.	श्री रविन्द्र कुमार	₹ 15,01,332/- 28-02-2022 तक	25-03-2022	07-07-2022 (सांकेतिक कब्जा)	यूनिट-1/167-ईडब्ल्यूएस स्वर्ण जयंती विहार, परगना वजीला, कानपुर स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल : 58.19 वर्गमीटर, चर्तुसीमा : पूर्व : प्लॉट नं.1/168, पश्चिम : रोड, उत्तर : प्लॉट नं.1/168, दक्षिण : रोड
3.	श्रीमती रिचा शुक्ला एवं श्री वैधांत शुक्ला [कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि/श्रीमती रिचा शुक्ला के माध्यम से न्यायालयिक प्रतिनिधित्व]	₹ 28,25,687/- 28-02-2022 तक	21-03-2022	07-07-2022 (सांकेतिक कब्जा)	प्लॉट नं.102, फ्लोर-1, रुद्राक्ष आर्चिड के नाम से ज्ञात, प्रीहोल्ड प्लॉट नं.एन-58 एवं एन-59 ब्लॉक-बी पर निर्मित, स्कीम नं.40 पंकी कानपुर, कवर्डक्षेत्रफल : 81.75 वर्गमीटर, भूमि के अधिभागीत हिस्से के साथ 35.91 वर्गमीटर, चर्तुसीमा : पूर्व : खुला आसमान, पश्चिम : प्लॉट नं.107, उत्तर : पैसेज एवं प्लॉट नं.101, दक्षिण : सिविलीयों

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that share certificate(s) No. 263 for 1500 Equity Shares of Rs. 1/- (Rupees One only) Each bearing Distinctive Nos. 156543275 To 156544774, Folio No. 000198999 of KAJARIA Ceramics Ltd Registered in the name of VIJAY LAXMI KAUL has been lost and the undersigned has/have applied to the company to issue duplicate certificate(s). Any person who has/have any claim in respect of the said shares certificate(s) should lodge such claim with the company at its registered office SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon Haryana 122001 within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificate(s).

Date: 12/07/2022 Name(s) of the Claimant(s) VIJAY LAXMI KAUL Place: Delhi

लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड - बिक्री के अंतर्गत

U74900TG2008PTC060157

ई-नीलामी बिक्री नोटिस

संपत्तियों की बिक्री

लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड - बिक्री के अंतर्गत को संपत्तियों को माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हैदराबाद बेंच की ओर से नियुक्त लिक्विडेटर द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। ई-नीलामी 2 ब्लॉक्स के लिए आयोजित की जा रही है, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है-

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रजिस्ट्रार कम्पनी विधि अधिनियम, नई दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्वॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू कर लिमिटेड के क्रेडिटर्स को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि 30 में उक्त सौंपितिय वस्तु में "दवे" का उल्लेख करते हुए या उसके पूर्व अपने प्र फाइनेंसियल क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रिकल पद्धति से ही प्रमाण के साथ अड्डा डाक अथवा इलेक्ट्रिकल माध्यम से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा दावे का मतलब अथवा आमक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 12.7.2022
स्थान: नई दिल्ली

पंजीकरण सं.